



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 12]

नई दिल्ली, मार्च 18—मार्च 24, 2018, शनिवार/फाल्गुन 27, 1939—चैत्र 3, 1940

No. 12]

NEW DELHI, MARCH 18—MARCH 24, 2018, SATURDAY/PHALGUNA 27, 1939—CHAITRA 3, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 84.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह-‘ग’ और समूह-‘घ’ पद)] भर्ती नियम 2004, जहां तक इनका संबंध फोरमैन (यांत्रिक), फोरमैन (विद्युत) और फोरमैन (बायलर) से है, का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में फोरमैन (यांत्रिक), फोरमैन (विद्युत) और फोरमैन (बायलर) (समूह ‘ख’ पद) की भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर [प्रयोगात्मक चीनी कारखाना (समूह-‘ख’ पद)] भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. फोरमैन (यांत्रिकी)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	स्तर-6 (35,400-1,12,400 रुपये)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा/ विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित);

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	
(11)	
<b>प्रोन्नति:</b>	
(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये) में टर्नर अथवा वैलडर या फाइन मैकेनिक, जिसने ग्रेड में अठारह वर्ष की नियमित सेवा की हो।	
<b>टिप्पण 1:</b> इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक ग्रेड पद में भर्ती हुए कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा सोलह वर्ष बनी रहेगी।	
<b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों की स्वस्थाने वरिष्ठता को सम्यक ध्यान रखते हुए अधिकारी के ग्रेड अथवा पद द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	
<b>टिप्पण 3:</b> ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	
<b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</b>	
केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी या स्वायत्तशासी निकाय या सांविधिक संगठनों के अधिकारी	
(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा	
(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छः वर्ष की सेवा की हो; अथवा	
(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; और	
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:	
(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से यांत्रिक इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।	
(ii) सरकारी संगठन के कारखाने अथवा कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव।	
<b>टिप्पण 1:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।	
<b>टिप्पण 2:</b> प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
<b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:-</b>	लागू नहीं होता
(i) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष	
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	

(iii) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	
<b>II. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:-</b>	
(i) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष	
(ii) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	
(iii) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. फोरमैन (विद्युत)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसन्धित	स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपये)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)
<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>(i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसने ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 – 63,200 रुपये) में इलेक्ट्रिशियन, जिसने इस ग्रेड में 18 वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक ग्रेड पद में भर्ती हुए कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा सोलह वर्ष बनी रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों की स्वस्थाने वरिष्ठता को विधिवत ध्यान रखते हुए अधिकारी के ग्रेड अथवा पद द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही</p>

पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधिकारी:

(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छः वर्ष की सेवा की हो; अथवा

(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से विद्युत इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(ii) सरकारी संगठन के कारखाने अथवा कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव।

**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<b>I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:-</b> (1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य <b>II. समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति:-</b> (1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष (2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य (3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
3. फोरमैन (बायलर)	01*(2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसूचित	स्तर 6 (35,400-1,12,400 रुपये)

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)
<p><b>प्रोन्नति:</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900 – 63,200 रुपये) में फ़िटर 'सी' अथवा मोल्डर, जिसने इस ग्रेड में 18 वर्ष की नियमित सेवा की हो;</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> इन भर्ती नियमों की अधिसूचना की तारीख को पोषक ग्रेड पद में भर्ती हुए कार्मिकों की प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा सोलह वर्ष बनी रहेगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड अथवा पद में अधिकारियों की स्व:स्थाने वरिष्ठता को सम्यक ध्यान रखते हुए अधिकारी के ग्रेड अथवा पद द्वारा पूर्णता की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p><b>टिप्पण 3:</b> ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हकारी अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है तथा उनको प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध विचार किया जा रहा है, वहां उनके वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, बशर्ते उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, पूरी कर ली है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):</b></p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्तशासी निकाय या कानूनी संगठनों के अधिकारी;</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (29,200-92,300 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद छः वर्ष की सेवा की हो; अथवा</p> <p>(iii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (25,500-81,100 रुपये) में अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर ग्रेड में नियुक्ति के बाद दस वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा बोर्ड से यांत्रिकी इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।</p> <p>(ii) सरकारी संगठन के कारखाने अथवा कार्यशाला में बायलर संयंत्र चलाने में दो वर्ष का अनुभव।</p>

**टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

**टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

**टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
<b>I. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति:-</b>	लागू नहीं होता
(1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष	
(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	
(3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	
<b>II. समूह 'ब' विभागीय स्थायीकरण समिति:-</b>	
(1) किसी शाखा में आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – अध्यक्ष	
(2) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	
(3) सहायक आचार्य (शर्करा इंजीनियरी) अथवा वरिष्ठ इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर – सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/20/2016-एस.ए.]

राजीव महेन्द्र, उप सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Food and Public Distribution)**New Delhi, the 14<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 84.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur [Experimental Sugar Factory (Group 'C' and 'D' Posts)] Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Foreman (Mechanical), Foreman (Electrical) and Foreman (Boiler), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Foreman (Mechanical), Foreman (Electrical) and Foreman (Boiler) (Group 'B' Posts) in the National Sugar Institute, Kanpur, under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur [Experimental Sugar Factory (Group 'B' posts)] Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** – The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Foreman (Mechanical)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).

Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation (Including Short-term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(11)
<b>Promotion:</b>
(i) Turner or Welder or Fine Mechanic in level-2 (Rs.19,900-63,200) in the Pay Matrix with eighteen years' regular service rendered in the grade.
<b>Note 1:</b> The qualifying service for promotion of the incumbents in the feeder grade post as on the date of notification of these recruitment rules shall continue to be sixteen years.
<b>Note 2:</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers' grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers in respective grades or posts.
<b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed



their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (Including short-term contract):**

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 (Rs.25,500-81,100) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
  - (i) three years Diploma in Mechanical Engineering from a recognised Institute or Board.
  - (ii) two years' experience in a factory or workshop of a Government organisation.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(12)	(13)
<b>I. Group 'B' Departmental Promotion Committee:-</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman</li> <li>(ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> <li>(iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> </ul>	Not applicable
<b>II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman</li> <li>(ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> <li>(iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> </ul>	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Foreman (Electrical)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years	By promotion failing which by deputation (Including Short-term Contract).

(11)
<p><b>Promotion:</b></p> <p>(i) Electronic Mechanic in level 4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix with ten years' regular service rendered in the grade; and</p> <p>(ii) Electrician in level 2 (Rs.19,900-63,200) in pay matrix with eighteen years' regular service rendered in the grade;</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifying service for promotion of the incumbents in the feeder grade post of electrician as on the date of notification of these recruitment rules shall continue to be sixteen years.</p> <p><b>Note 2:</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers' grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers in respective grades or posts.</p> <p><b>Note 3:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation (Including short-term contract):</b></p> <p>Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations:</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 4 (Rs. 25,500-81,100) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience:</p> <p>(i) three years Diploma in Electrical Engineering from a recognised Institute or Board.</p> <p>(ii) two years' experience in a factory or workshop of a Government organisation.</p> <p><b>Note 1:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2 :</b> The period of deputation (including short- term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 3 :</b> The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
<b>I. Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b> (i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member <b>II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</b> (i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member (iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Foreman (Boiler)	01* (2018) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400).

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years	By promotion failing which by deputation (Including Short-term Contract).

(11)
<b>Promotion:</b> Fitter 'C' or Moulder in level 2 (Rs.19,900-63,200) in pay matrix with eighteen years' regular service rendered in the grade. <b>Note 1 :</b> The qualifying service for promotion for the incumbents in the feeder grade post as on the date of notification of these recruitment rules shall continue to be sixteen years. <b>Note 2 :</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers' grade or post with due regard to the inter-se seniority of officers in respective grades or posts.

**Note 3:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation (Including short-term contract):**

Officers under Central Government or State Governments or Union Territory administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised research institutions or semi Government or autonomous bodies or statutory organisations:

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 (Rs.29,200-92,300) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-4 (Rs.25,500-81,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:
  - (i) three years Diploma in Mechanical Engineering from a recognised Institute or Board.
  - (ii) two years' experience in operating boiler plant in a factory or workshop of a Government organisation.

**Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
<p><b>I. Group 'B' Departmental Promotion Committee :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman</li> <li>(ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> <li>(iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> </ul> <p><b>II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman</li> <li>(ii) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> <li>(iii) Assistant Professor (Sugar Engineering) or Senior Instrument Engineer, National Sugar Institute, Kanpur - Member</li> </ul>	<p>Not applicable</p>

[F. No. A-12018/20/2016-SA]

RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.

**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 85.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान स्टेशन, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2015 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** - पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं आदि:** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	41* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 04 (25500-81100 रूपये)	अचयन पद

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(6)	(7)	(8)
<p>18 और 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण 1 :</b> आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)</p> <p><b>टिप्पण 2 :</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p><b>प्रोन्नति :</b> वेतन मैट्रिक्स 19900- 63200) रु. के स्तर-2 में ऐसे अवर श्रेणी लिपिक, जिन्होंने, उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हों।</p> <p><b>टिप्पण -</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे</b> 1. अपर निदेशक/वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय / विभाग से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य <b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टी समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे</b> 1. अपर निदेशक/वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय / विभाग से समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/30/2017-स्था. II]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION**New Delhi, the 9<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 85.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk Group 'C' Post Recruitment Rules 2015 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, the Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Upper Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**— The number of post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk	41* (2018) * subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Level- 04 in pay matrix (Rs.25500-81100).	Non-selection post.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)	Bachelor Degree from a recognized University.
<p><b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)</p> <p><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	

Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years for direct recruits.	Promotion failing which by direct recruitment.	<p><b>Promotion:</b> Lower Division Clerk in level-02 in pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years regular service in the grade.</p> <p><b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of</p>



			such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group `C' Departmental Promotion Committee, consisting of:-</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director/ Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman</li> <li>2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune -Member</li> <li>3. Group 'A' officer from other Central Government, Ministry/Department - Member</li> </ol> <b>Group `C' Departmental Confirmation Committee, consisting of:-</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director/ Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman</li> <li>2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune -Member</li> <li>3. Group 'A' officer from other Central Government, Ministry/Department - Member</li> </ol>	Not applicable.

[F. No. A-12018/30/2017-E.II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली , 13 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 86.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, उद्यान उप ओवरसियर, समूह ग, पद भर्ती नियम 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया हो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में उद्यान उप ओवरसियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, उद्यान उप ओवरसियर, समूह 'ग', पद भर्ती नियम, 2018 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और मैट्रिक्स में स्तर:-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त/ पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

#### 4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की सविदा की हो या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की सविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उद्यान उप ओवरसियर	1* (2018)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000-56,900 रुपये)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
<p>18 और 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।)</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।)</p> <p><b>टिप्पण :</b> रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>	<p><b>आवश्यक :-</b></p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और</p> <p>(ii) कृषि विश्विद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बागवानी का एक वर्ष का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।</p> <p><b>टिप्पण :</b> अर्हताएं अन्यथा सुअर्हत अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>वांछनीय :</b> आवश्यक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बागवानी में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव।</p>

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<b>समूह 'ग' प्रोन्नति समिति ( पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. वैज्ञानिक " ई ", केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक " डी ", केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे —सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग के समूह 'क' अधिकारी —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए-12018/52/2017-स्था.॥]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 13<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 86.—** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Garden Sub-Overseer, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2010 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Garden Sub-Overseer in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, in the Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Garden Sub-Overseer, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Garden-Sub-Overseer.	01 * (2018) * Subject to variation dependent Upon workload.	General Central Services, Group 'C' non-Gazetted, non-Ministerial.	Level- 1 in pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
<p>Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p><b>Note 1:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	<p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Matriculation or Equivalent from a recognised Board, and</p> <p>(ii) One year Certificate course in Horticulture from the Agriculture University or a recognised Institute.</p> <p><b>Note:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Desirable:</b> Two years working experience in Horticulture after essential qualification in a recognised institute.</p>

Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment promotion or deputation or absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	Direct recruitment.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion and confirmation consisting of :-</b>	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
(1) Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune. — Chairman;	
(2) Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune. - Member;	
(3) Group 'A' Officer from other Central Government/Department. — Member	

[F. No. A-12018/52/2017-E.II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 87.—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध बिजली मिस्त्री के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में बिजली मिस्त्री के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिजली मिस्त्री समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बिजली मिस्त्री	<b>02* (2018)</b> *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4, (25500-81100 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन। (ii) मान्यताप्राप्त व्यावसायिक संस्था से बिजली मिस्त्री के व्यवसाय में डिप्लोमा। (iii) पात्रता का विद्युत पर्यवेक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। (iv) उच्च वोल्टता और निम्न वोल्टता दोनों विद्युत संस्थापन के, जिसमें भूमिगत केबल पद्धति भी सम्मिलित है, विभिन्न प्रकारों के परिनिर्माण और चालू अनुरक्षण में तीन वर्ष का अनुभव। (v) वायरिंग आरेख पढ़ने की योग्यता हो।  <b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।  <b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा।  <b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी,-  (क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और  (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गये शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</b>  1. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'ग' या 'घ', राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य 3. अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 4(25)/2016-17/एनएमएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 19<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 87.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Museum of Natural History, Department of Environment, Forests and Wildlife (Group C Posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of Electrician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrician in the National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

**1. Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Electrician, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and level in pay matrix.**- The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**- Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Electrician	02* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4, (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. <b>Note:</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	<b>Essential:</b> (i) Matriculation from a recognised Board. (ii) Diploma in Electrician's Trade from a recognised vocational Institute. (iii) Should possess Electrical Supervisory Certificate of competency. (iv) Three years' experience in erection and running maintenance of different types of both High Tension and Low Tension electrical installations including underground cable system. (v) Ability to read wiring diagrams. <b>Note 1:</b> The qualifications are relaxable at the discretion of the



	<p>Staff Selection Commission or Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>
--	---

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	<b>Method of recruitment</b> , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,-</p> <p>(a) holding analogous posts on regular basis; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director, National Museum of Natural History – Chairman;</li> <li>2. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member;</li> <li>3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member;</li> <li>4. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.</li> </ol>	Not applicable.

[F. No. 4(25)/2016-17/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 88.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध शिक्षा सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में शिक्षा सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, शिक्षा सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता - वह व्यक्ति -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शिक्षा सहायक	<b>06*</b> <b>(2018)</b> *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5, (29200-92300 ₹०)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>18 से 25 वर्ष के बीच</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)</p> <p><b>टिप्पण :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाए।</p>	<p><b>आवश्यक –</b></p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में बेचलर डिग्री; और</p> <p>(ii) शिक्षा में डिग्री या उच्च विद्यालय स्तर पर प्राकृतिक विज्ञान विषय में शिक्षण का या किसी संग्रहालय या वैसी ही संस्था में शैक्षिक क्रियाकलापों के संचालन का दो वर्ष का अनुभव।</p> <p><b>वांछनीय –</b></p> <p>संग्रहालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।
<p><b>टिप्पण :</b> पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी,-</p>	

(क) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; और	
(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गये शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'ग' या 'घ', राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य 3. अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 4(21)/2016-17/एनएसएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 19<sup>th</sup> March, 2018

**G.S.R. 88.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession the National Museum of Natural History, Department of Environment, Forests and Wildlife (Group C Posts) Recruitment Rules, 1975, in so far as they relate to the post of the Educational Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Educational Assistant in the National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

**1. Short title and commencement.**-(i) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Educational Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.**- The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**-The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**4. Disqualification.**- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Educational Assistant	06* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 4, (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
<p>Between 18 and 25 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p> <p><b>Note :</b> The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.</p>	<p><b>Essential:</b></p> <p>(i) Bachelor's degree in Botany and Zoology from a recognised University;</p> <p>And</p> <p>(ii) Degree in Education or two years' experience of teaching in Natural Science subjects at High School level or conducting educational activities in a Museum or a similar institution.</p> <p><b>Desirable:</b></p> <p>Degree or Diploma in Museology.</p> <p><b>Note 1:</b> The qualifications are Relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	<b>Method of recruitment</b> , whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment.  <b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long leave or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,-  (a) holding analogous posts on regular basis; and  (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b>  5. Director, National Museum of Natural History – Chairman;  6. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member;  7. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member;  8. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.	Not applicable.

[F. No. 4(21)/2016-17/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 89.—**कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017 का अधिकांश करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिन की अवधि को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

कोई आक्षेप या सुझाव, जो पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, उप सचिव (पशु कल्याण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली को भेजा जा सकेगा ।

### प्रारूप नियम

#### अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु बाजारों में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2018 है ।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं.-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-  
(क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;  
(ख) “पशु बाजारा” से कोई बाजार स्थल या विक्रय बाड़ा या कोई अन्य परिसर या स्थान अभिप्रेत है जहां पर पशुओं को अन्य स्थानों से लाया जाता है तथा इसके अंतर्गत पशु मेला और पशु कांजी हौज भी है, किसी राज्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन, जो सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त हो, जहां पर पशुओं को विक्रय या नीलामी के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किया जाता है ;  
(ग) “समिति” से प्रत्येक जिले के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण के लिए नियम 3 के अधीन गठित या अभिहित समिति अभिप्रेत है ;  
(घ) “प्ररूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;  
(ङ) “प्रतिषिद्ध व्यवसाय” से ऐसे व्यवसाय अभिप्रेत है, जो पशुओं के लिए अपहानिकर है और जो अनावश्यक पीड़ा और यातना कारक है ;  
(च) “पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;  
(छ) “राज्य बोर्ड” से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;  
(ज) “अयोग्य पशु” के अंतर्गत ऐसे पशु, जो अल्पवय, पहले ही से गर्भावस्था में, दुर्बल, अस्वस्थ, रूग्ण, क्षतिग्रस्त या थके-मांदे भी हैं ;  
(झ) “पशु चिकित्सा निरीक्षक” से किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक अभिप्रेत है ;  
(ञ) “अल्पवय पशु” से छह मास की आयु से कम का कोई पशु अभिप्रेत है ।  
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं ।

#### अध्याय – 2 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति

3. **पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति का गठन.-** (1) इन नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक जिले में संबद्ध राज्य सरकार द्वारा एक पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति गठित या अभिहित की जाएगी ।  
(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :-  
(क) जिला मजिस्ट्रेट ;  
(ख) राज्य पशु कल्याण बोर्ड का एक प्रतिनिधि ;  
(ग) जिला पुलिस अधीक्षक ;  
(घ) पशु कल्याण से संबंधित गैर सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि ;

- (ड) एसपीसीए का एक प्रतिनिधि ;
  - (च) जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा ;
  - (छ) यथास्थिति, जिला परिषद् या स्वायत्त परिषद् का अध्यक्ष ;
  - (ज) नगरपालिका या जिला स्तर में पंचायत अध्यक्ष ;
  - (झ) समिति में ऐसे तीन से अनधिक अन्य व्यक्ति हों जिनके पास पशु कल्याण, पशु चिकित्सा विज्ञान, शासन और विधि प्रवर्तन में विशेषज्ञता हो ।
- परंतु यह कि राज्य सरकार, इन नियमों के प्रवर्तन के लिए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति के रूप में पशु बाजारों को चालू रखने के लिए राज्य अधिनियम या तद्विध बनाए गए नियमों या विनियमों या उसके अधीन जिला प्रशासन या उसके द्वारा स्थापित किसी समिति को अभिहित कर सकेगी ।
- परंतु यह और कि खंड (क) से खंड (झ) के उपबंध प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट समिति के मामले में लागू नहीं होंगे ।
- (3) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, समिति का सदस्य बनने में प्रतिषिद्ध होगा ।

**4. समिति के कृत्य.-** (1) प्रत्येक समिति, यथावश्यक, सभी उपाय करेगी जिससे कि ऐसे व्यक्तियों से ऐसे निदेशों के माध्यम से उसकी अधिकारिता में पशु बाजारों में पशुओं को कोई अनावश्यक पीड़ा और यातना न हो ।

(2) उप नियम (1) के अधीन उसकी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समिति -

- (क) नियम 5 के अधीन, इन नियमों के अनुपालनकर्ता से, किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, पूर्ण रूप से या अनंतिम रूप से, जो वह ठीक समझे, उसकी अधिकारिता में प्रत्येक विद्यमान पशु बाजार का सत्यापन कराएगी ;
- (ख) नियम 6 के अधीन, इन नियमों के अनुपालनकर्ता से, किन्हीं अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, पूर्ण रूप से या अनंतिम रूप से, जो वह ठीक समझे, उसकी अधिकारिता में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक नए पशु बाजार का सत्यापन कराएगी ;
- (ग) नियम 7 के अधीन, उसकी अधिकारिता में स्थित सभी पशु बाजारों की सुविधाओं संबंधी विनिर्देशों, जिसके अंतर्गत अधिकतम धारिता क्षमता भी है, का अवधारण कराएगी ;
- (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कराएगी कि उसकी अधिकारिता में कोई पशु बाजार, यदि ऐसी अधिकारिता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नियम 8 के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार पशुओं के परिवहन का खोत नहीं है ;
- (ड) नियम 12 के अधीन उसकी अधिकारिता में स्थित पशु बाजारों पर पशु विक्रय के रजिस्टर के रखरखाव करने के सभी आवश्यक उपाय कराएगी ;
- (च) नियम 13 के अधीन उसकी अधिकारिता में पशु के विक्रय के अनुरूप होने के प्रमाणपत्र देने के लिए आवश्यक इंतजाम कराएगी ;
- (छ) पशु चिकित्सक, निरीक्षक की ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जो नियम 15 के अधीन उसकी अधिकारिता में पशु बाजारों का निरीक्षण करने में उसकी सहायता करने के लिए अवधारित करें, की सेवाओं को लगा सकेगी या उसका उपयोग कर सकेगी ;
- (ज) नियम 16 के अधीन इन नियमों के अनुपालन के लिए समुचित कार्यवाई कराएगी ।

**5. विद्यमान पशु बाजारों में नियमों का प्रवर्तन.-** (1) जिला मजिस्ट्रेट इन नियमों के प्रारंभ से पहले प्रयोजन मूलक पशु बाजार की सूची तैयार करेगा और ऐसे प्रारंभ के दो सप्ताह के भीतर समिति को इसकी सूचना देगा ।

- (2) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व प्रत्येक प्रयोजन मूलक पशु बाजार समिति द्वारा नियत समय अवधि के भीतर समिति से इन नियमों सहित प्ररूप 1 में पूर्ण अनुपालन का प्रमाणपत्र मांगा जाएगा ।
- (3) समिति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान करेगी जिसके अंतर्गत समिति के, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी शर्तों में इन नियमों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करना भी है, विनिश्चय करेगी ।



**6. नए पशु बाजारों में नियमों का प्रवर्तन.-** (1) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में स्थापित करने के लिए चाहे गए किसी नए पशु बाजार को इन नियमों के अनुपालन के संबंध में प्ररूप 1 में समिति से पूर्व प्रमाणपत्र की अपेक्षा किया जाएगा।

(2) समिति ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, अनंतिम प्रमाण पत्र प्रदान करेगी जिसके अंतर्गत समिति के, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी शर्तों में इन नियमों के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करना भी है, विनिश्चय करेगी।

### अध्याय 3 : पशु बाजारों में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सुविधाएं और उपबंध

**7. पशु बाजारों में पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सुविधाएं.-** (1) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पशु बाजार में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हो :-

- (i) जल आपूर्ति ;
  - (ii) उस क्षेत्र में, जहां सूर्यास्त के पश्चात् बाजार में कार्य करना पड़ता है, प्रकाश की व्यवस्था ;
  - (iii) चारा भंडारण क्षेत्र और चारे का प्रदाय ;
  - (iv) स्थल से मृत पशुओं के व्ययन की समुचित व्यवस्था ;
  - (v) खाद और जैव अपशिष्ट के व्ययन की समुचित व्यवस्था।
- (2) समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, प्रत्येक पशु बाजार के अधिकतम धारिता क्षमता का अवधारण करेगी।
- (3) उप नियम (1) में उल्लिखित सुविधाओं और उपनियम (2) के अनुसार अवधारित अधिकतम धारिता क्षमता संबंधी विनिर्देशों को समिति द्वारा प्रत्येक पशु बाजार को सूचित किया जाएगा और पशु बाजार में ऐसी रीति में, जो समिति निदेश दें, प्रमुख रूप में प्रदर्शित कराया जाएगा।

**8. अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पशु बाजार.-** किसी समिति की, जिसकी अपनी अधिकारिता में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी अधिकारिता में कोई पशु बाजार है जहां पशु परिवहन नियम, 1978 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 के अनुसार के सिवाय किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पार पशुओं के परिवहन के खोत नहीं है।

**9. प्रतिषिद्ध आचरण.-** पशु बाजार में निम्नलिखित क्रूर और अपहानिकर आचरण प्रतिषिद्ध होंगे, अर्थात् :-

- (क) पशु पहचान पद्धतियां, जैसे तप्त छाप और शीत छाप ;
- (ख) सींगों की छाप, घोड़ों में बिशपिंग और भैंसों में कान काटना ;
- (ग) नालबंदी के दौरान यथोचित शैय्या के बिना पशु को कठोर सतह पर गिराना;
- (घ) पशुओं के शरीर के अंगों पर किन्हीं खतरनाक रसायनों का उपयोग;
- (ङ) किसी सामग्री का उपयोग करते थक की चूंची को बंद करना, जैसे दूध पीने से रोकने के लिए चिपकने वाला टेप;
- (च) उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक से भिन्न द्वारा विहित कोई भी तरल या द्रव का बलपूर्वक पिलाना या स्टेरायड्स या मूत्रल या प्रतिजैविकी उपयोग करना;
- (छ) अल्पवय पशु को दूध पीने या खाना खाने से रोकने के लिए, अर्थात् दुख पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के छीका का उपयोग करना;
- (ज) दुधारू पशुओं के शरीर में आक्सिटोक्सिन का इंजेक्शन लगाना;
- (झ) मिथ्याचिकित्सक या परंपरागत चिकित्सक द्वारा पशुओं का बधियाकरण;
- (ञ) किसी पशु चिकित्सक से भिन्न पहचान प्रयोजनों के लिए नाक नाटना या कान चीरना या चाकू से काटना या लोहे से चिन्हांकित करना;
- (ट) पशुओं के गुप्तांग को चारों ओर बांधना या;
- (ठ) समिति द्वारा उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, यथा अवधारित कोई अन्य प्रतिषिद्ध आचरण।

परंतु समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त आचरण में से किसी को शिथिल कर सकती है।

**10. पशुओं को खाना और पानी देना.-** पशुओं के प्रभारी व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में पशुओं के लिए –

- (क) जितनी बार भी आवश्यक हो, प्यास के कष्ट से निवारित करने के लिए स्वास्थ्यप्रद जल की यथोचित मात्रा में व्यवस्था की जाए;
- (ख) जितनी बार भी आवश्यक हो, भुखभरी के कष्ट से निवारित करने के लिए स्वास्थ्यप्रद खाद्य की यथोचित मात्रा में व्यवस्था की जाए।

#### अध्याय 4 – पशु विक्रयों में क्रूरता का निवारण

**11. अयोग्य पशु संबंधी प्रतिषेध.-** (1) किसी अयोग्य पशु या अल्पवय पशु को पशु बाजार में नहीं बेचा जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी पशु को, पशु बाजार में या ऐसे पशु बाजार से विक्रय के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि उसका वहीं रहते हुए या उसके परिवहन के दौरान जन्म दिया जाना संभाव्य है।

**12. पशु विक्रय का रजिस्टर.-** (1) समिति अंतर्विष्ट रजिस्टर का निम्नलिखित रूप में अनुरक्षण कराएगी –

- (क) पशु बाजार पर पशु के क्रेता और विक्रेता का नाम और पता
- (ख) पशु बाजार पर विक्रय किए गए पशु के व्यौरे।
- (2) समिति उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसी अवधि के लिए, जो अवधारित किए जाएं, समिति द्वारा रजिस्टर को रखा जाएगा।

**13. क्रेता के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र.-** समिति, यह घोषणा प्राप्त करने के पश्चात् कि क्रेता इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं के परिवहन संबंधी नियमों का पालन करेगा, किसी पशु बाजार में किसी पशु के क्रेता को, मांग किए जाने पर, इन नियमों के अनुसार किसी पशु का क्रय किए जाने के सबूत के रूप में **प्ररूप II** में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएगी।

#### अध्याय 5 : पशु बाजार का निरीक्षण

**14. राज्य बोर्ड की निरीक्षण प्राधिकृत करने की शक्ति.-** उन नियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए राज्य बोर्ड अपने किसी अधिकारी को किसी भी पशु बाजार का निरीक्षण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा तथा आगे की कार्रवाई के लिए राज्य बोर्ड और समिति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अधिकारी –

- (क) पशु बाजार के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा ;
- (ख) किसी भी व्यक्ति से उक्त बाजार की बाबत उसके द्वारा रखे गए किसी भी अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा;
- (ग) पशुओं की क्रूरता की फोटो चित्रात्मक और वीडियो रूप में सबूत ले सकेगा।

**15. पशु बाजार का निरीक्षण.-** (1) समिति, प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा, जैसे अपेक्षा की जाएं, अपनी अधिकारिता में पशु बाजारों का नियमित निरीक्षण कराएगी।

- (2) ऐसे प्रत्येक निरीक्षण के पश्चात् एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसकी समीक्षा समिति द्वारा भावी कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए की जाएगी।
- (3) यदि समिति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पशु के साथ पशु बाजार में क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है तो वह ऐसे किसी पशु को पशु बाजार से हटा सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत पशु को स्थानीय एसपीसीए या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पशु कल्याण संगठन की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

**16. अननुपालन के लिए कार्रवाई.-** यदि कोई पशु बाजार इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो समिति ऐसे किसी प्राधिकरण को जिसके विधि द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी पशु बाजार को अनुज्ञप्त या रजिस्टर करने के लिए निहित किया गया है-

- (क) ऐसे पशु बाजार की अनुज्ञप्ति या रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की सिफारिश कर सकेगी।
- (ख) यदि ऐसा अननुपालन किसी व्यक्ति के किसी कार्य या लोप के कारण हुआ है तो समिति द्वारा उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अवधारित की जाने वाली बाकी समय अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति को किसी पशु बाजार में प्रवेश करने से वर्जित किए जाने की सिफारिश कर सकेगी :

परंतु ऐसी कोई सिफारिश ऐसे किसी पशु बाजार या व्यक्ति को जिसके संबंध में ऐसी सिफारिश की जा रही है, सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

**प्ररूप ।**

**[नियम 5 और नियम 6 देखिए]**

**अनुपालन प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....पशु बाजार ने उक्त नियमों के नियम 5(2)/6(1) की अपेक्षानुसार पशु बाजार में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 के अधीन सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिया है।

हस्ताक्षर.....

(पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण  
समिति का प्राधिकृत अधिकारी)

**प्ररूप ।।**

**[नियम 13 देखिए]**

**पशु क्रय प्रमाण पत्र**

पशु क्रय करने की तारीख और समय:

जाति और नस्ल :

संख्या:

लिंग और आयु:

पहचान चिन्ह (यदि कोई हों):

कोई विशिष्ट लक्षण:

स्वास्थ्य प्रास्थिति:

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने पशु बाजार में पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2017 को पढ़ लिया है और मैं यह कथन करता हूं कि -

1. मैं पशु बाजार में पशुओं के उपचार संबंधी उक्त नियमों का पालन करूंगा।

2. मैं पशु परिवहन नियम, 1978 और पशु संबंधी खाद्य परिवहन नियम, 2001 संबंधी उक्त नियमों का पालन करूंगा।

क्रेता का हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित.....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पता.....

.....

तारीख.....

अहंता.....

यह प्रमाण पत्र पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समिति के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

[फा. सं. 1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

मंजू पांडे, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 22nd March, 2018

**G.S.R. 89.**—The following draft of certain rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), and in supersession of the Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of Livestock markets) Rules, 2017, is hereby published, as required by sub-section (1) of section 38 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Deputy Secretary (Animal Welfare) to the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, New Delhi.

## DRAFT RULES

### CHAPTER I: PRELIMINARY

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals in Animal Markets Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
  - (b) “animal market” means a marketplace or sale-yard or any other premises or place to which animals are brought from other places and exposed for sale or auction and includes animal fairs and cattle pounds where animals are offered or displayed for sale or auction, as duly licensed or recognised under a State Act or any other law for the time being in force or any rules or regulations made thereunder;
  - (c) “Committee” means the Prevention of Cruelty to Animals Committee constituted or designated under rule 3, for each district;
  - (d) “Form” means form appended to these rules;
  - (e) “prohibited practices” means practices that are harmful to animals and cause unnecessary pain and suffering;
  - (f) “Society for Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)” means a SPCA established under the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001;
  - (g) “State Board” means the State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government;
  - (h) “unfit animal” includes animals which are young, in advanced pregnancy, infirm, diseased, ill, injured or fatigued;
  - (i) “veterinary inspector” means a registered veterinarian authorised by the local authority;
  - (j) “young animal” means any animal below the age of six months.
- (2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

### CHAPTER II: PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS COMMITTEE

**3. Constitution of Prevention of Cruelty to Animals Committee.**— (1) There shall be a Prevention of Cruelty to Animals Committee in each district for the purpose of exercising the powers under these rules, to be constituted or designated by the concerned State Government.

(2) The Committee shall comprise of the following members: —

- (a) the District Magistrate;
- (b) one representative of the State Animal Welfare Board;
- (c) the Superintendent of Police of the district;

- (d) one representative of a local Non Governmental Organisation dealing with animal welfare;
- (e) one representative of the SPCA;
- (f) district veterinary officer, who shall be the Member Secretary;
- (g) chairperson of the Zilla Parishad or Autonomous Council, as the case may be;
- (h) chairman of the Municipality; or Panchayat at the district level;
- (i) the Committee may co-opt such other persons, not exceeding three, with expertise in animal welfare, veterinary sciences, governance, and law enforcement.

*Provided that* the State Government may designate any Committee set up by it or a district administration under it or a State Act or the rules or regulations made thereunder for the upkeep of animal markets, as the Prevention of Cruelty to Animals Committee for the enforcement of these rules.

*Provided further* that the provisions of clauses (a) to (i) shall not apply in the case a Committee referred to in the first proviso.

(3) A person who has been convicted under the Act shall be prohibited from being a member of the Committee.

**4. Functions of Committee.**— (1) Every Committee shall take all necessary steps to ensure that no unnecessary pain and suffering is caused to animals in animal markets in its jurisdiction through such directions to such persons as may be necessary.

(2) Without prejudice to the generality of its power under sub-rule (1), every Committee shall-

- (a) certify every existing animal market in its jurisdiction as fully or provisionally compliant with these rules subject to any conditions as it may deem fit, under rule 5;
- (b) certify every new animal market proposed to be established in its jurisdiction as fully or provisionally compliant with these rules subject to any conditions as it may deem fit, under rule 6;
- (c) determine specifications regarding facilities at all animal markets in its jurisdiction including maximum holding capacity under rule 7;
- (d) take all necessary steps to ensure that no animal market in its jurisdiction, if such jurisdiction includes an international border, is the source of transport of animals across any international border, except as provided under rule 8;
- (e) take all necessary steps to maintain a register of animal sales at animal markets in its jurisdiction under rule 12;
- (f) make necessary arrangements to provide a certificate of compliance for purchaser of an animal at an animal market in its jurisdiction under rule 13;
- (g) engage or utilise the services of veterinary inspector on such terms and conditions as it may determine to assist it in inspecting animal markets in its jurisdiction under rule 15;
- (h) recommend appropriate action for non-compliance with these rules under rule 16.

**5. Enforcement of rules in existing animal markets.**— (1) The District Magistrate shall make a list of animal markets functional prior to the commencement of these rules and intimate the same to the Committee within two weeks of such commencement.

(2) Every animal market functional prior to the commencement of these rules, shall within a time period fixed by the Committee, seek certification of full compliance, as per Form I, with these rules from the Committee.

(3) The Committee may grant provisional certification subject to such conditions as it may deem fit, including ensuring full compliance with these rules in such period as the Committee may, for reasons to be recorded in writing, decide.

**6. Enforcement of rules in new animal markets.**— (1) Any new animal market sought to be established in a State or Union territory shall require prior certification from the Committee, as per Form I, regarding compliance with these rules.

(2) The Committee may grant provisional certification subject to such conditions as it may deem fit, including ensuring full compliance with these rules in such period as the Committee may decide.

### CHAPTER III: FACILITIES AND PROVISIONS AT ANIMAL MARKETS TO PREVENT CRUELTY TO ANIMALS

**7. Facilities at animal markets to prevent cruelty to animals.—** (1) Every animal market shall ensure that the following facilities are available:—

- (i) water supply;
- (ii) lighting in areas where the markets function after sunset;
- (iii) feed storage area and feed supply;
- (iv) provisions for proper disposal of dead animals from the site;
- (v) provisions to ensure hygiene, proper disposal of manure and bio-waste.

(2) The Committee shall, for reasons to be recorded in writing, determine the maximum holding capacity of every animal market.

(3) Specifications regarding the facilities mentioned in sub-rule (1) and the maximum holding capacity determined as per sub-rule (2), shall be intimated to each animal market by the Committee and prominently displayed at the animal market in such manner as the Committee may direct.

**8. Animal markets near international borders.—**Any Committee which has an international border in its jurisdictional area shall ensure that no animal market in its jurisdiction is the source of transport of animals across any international border except in accordance with the Transport of Animals Rules, 1978 and the Prevention of Cruelty to Animals (Transport of Animals on Foot) Rules, 2001.

**9. Prohibited practices.—**The following cruel and harmful practices shall be prohibited at animal markets, namely:-

- (a) animal identification methods such as hot branding and cold branding;
- (b) shearing of horns, bishoping in horses and ear cutting in buffaloes;
- (c) casting animals on hard ground without adequate bedding during farriery;
- (d) use of any hazardous chemicals on body parts of animals;
- (e) sealing teats of the udder using any material such as adhesive tapes to prevent suckling;
- (f) forcefully drenching any fluids or liquids or using steroids or diuretics or antibiotics, other than prescribed by a veterinarian for the purpose of treatment;
- (g) use of any type of muzzle, that hurts, to prevent young animals from suckling or eating food;
- (h) injecting oxytocin into milch animals;
- (i) castration of animals by quacks or traditional healers;
- (j) nose-cutting or ear-slitting or cutting by knife or hot iron marking for identification purposes other than by a veterinarian;
- (k) tying rope around the penis of animals; or
- (l) any other prohibited practice as determined by the Committee, for reasons to be recorded in writing:

*Provided that* the Committee may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the above practices as per local conditions.

**10. Feeding and watering of animals.—** It shall be the duty of the person in charge of an animal to ensure that the animal in an animal market is provided—

- (a) with an adequate quantity of wholesome water as often as is necessary to prevent it suffering from thirst;
- (b) with adequate quantity of wholesome food as is necessary to prevent it suffering from starvation.

### CHAPTER IV: PREVENTING CRUELTY IN ANIMAL SALES

**11. Prohibition relating to unfit animals.—** (1) No unfit animal or young animal shall be sold in an animal market.

(2) No person shall permit an animal to be offered or displayed for sale in an animal market if it is likely to give birth while it is there or during its transportation to or from such animal market.

**12. Register of animal sales.—**(1) The Committee shall cause the maintenance of a register containing—

- (a) name and address of the purchaser and seller of an animal at an animal market;
- (b) details of the animal sold at the animal market.

(2) The register shall be retained by the Committee for such period as the Committee may, for reasons to be recorded in writing, determine.

**13. Certificate of compliance for purchaser.—** The Committee shall, in Form II, provide to the purchaser of any animal at an animal market a certificate upon demand as proof of purchase of an animal in accordance with these rules after taking a declaration that the purchaser shall abide by the rules relating to transport of animals made under the Act or any other law for the time being in force.

**CHAPTER V: INSPECTION OF ANIMAL MARKET**

**14. Powers of State Board to authorise inspection.—**For the purpose of ensuring compliance with these rules, the State Board, may authorise any of its officers in writing to inspect any animal market and submit a report to the State Board and the Committee for further action and any officer so authorised may-

- (a) enter at reasonable times to inspect the animal market;
- (b) require any person to produce any record kept by him with respect to the said market;
- (c) take photographic and video proof of cruelty to animals.

**15. Inspection of animal markets.—**(1) The Committee shall cause regular inspections of animal markets in its jurisdiction to be made by authorised officials, as may be required.

(2) Every such inspection shall be followed by an inspection report, to be scrutinised by the Committee to recommend future action.

(3) The Committee may remove from the animal market, any animal, if it has reason to believe that the animal is being treated cruelly at an animal market, and the animal so seized shall be kept in the custody of the local SPCA or an animal welfare organisation recognised by the Board.

**16. Action for non-compliance.--** If any animal market fails to comply with these rules, the Committee may recommend to the authority invested by law to licence or register an animal market in a State or Union territory--

- (a) for cancellation of licence or registration of such animal market;
- (b) for imposition of a bar on any person from entering an animal market, if non-compliance is owing to any act or omission by him for such time period as may, for reasons to be recorded in writing, be determined by the Committee.

*Provided that* no such recommendation shall be made without giving the animal market, in respect of which, or person, in respect of whom, such recommendation is being made, an opportunity of being heard.

**FORM I**  
[See rules 5 and 6]

**Certificate of Compliance**

This is to certify that \_\_\_\_\_ animal market has met all the requirements under the Prevention of Cruelty to Animal in Animal Market Rules, 2017 as required under rules 5(2) /6 (1) of the said rules.

Signature \_\_\_\_\_  
(Authorised Official  
Prevention of Cruelty to  
Animal Committee)

**FORM II****[See rule 13]****CERTIFICATE OF PURCHASE OF ANIMALS**

Date and time of purchase of animal:

Species and Breed:

Number:

Sex and Age:

Identification Marks (if any):

Any specific characteristic:

Health Status –

I hereby certify that I have read the Prevention of Cruelty to Animals in Animal Market Rules, 2017, and hereby state that –

1. I will abide by the said rules pertaining to treatment of animals in the animal market.
2. I will abide by the said rules pertaining to the Transport of Animals Rules, 1978 and Transport of Animals on Foot Rules, 2001.

\_\_\_\_\_  
Signature of the Purchaser

Counter Signed \_\_\_\_\_

Authorised Signatory

Address \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Qualification \_\_\_\_\_

This Certificate should be counter signed by the Authorised Representative of the Prevention of Cruelty to Animals Committee.

[F. No. 1/1/2016-AWD]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.